

## Work Sheet

**Class- VIII**  
**Subject- Hindi**

**वसंत**  
**पाठ 3 बस की यात्रा**  
**पाठ 4 दीवानों की हस्ती**  
**व्याकरण**  
**उपसर्ग एवं प्रत्यय**

### निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए –

1. बस की यात्रा पाठ में गांधी जी के किस आंदोलन का वर्णन है ?  
क) असहयोग आंदोलन का  
ख) सविनय अवज्ञा आंदोलन का  
ग) उपर्युक्त में से कोई नहीं  
घ) क एवं ख
2. लेखक और उसके मित्रों को कहाँ जाना था ?  
क) पन्ना  
ख) सतना  
ग) जबलपुर  
घ) रायगढ़
3. यह बस कहाँ की ट्रेन से मिला देती है?  
क) सतना की  
ख) जबलपुर की  
ग) पन्ना की  
घ) भोपाल की
4. बस कहाँ खराब हो गई?  
क) झील के पास  
ख) पुलिया पर  
ग) एक गाँव में  
घ) पुल के नीचे
5. लेखक के अनुसार क्रांतिकारी नेता में कौन से गुण होने चाहिए ?  
क) ईमानदार और त्यागी  
ख) सच्चाई और साहस  
ग) त्याग और परोपकार  
घ) साहस और बलिदान
6. कुल कितने लोग शाम की बस में यात्रा कर रहे थे?  
क) तीन  
ख) चार  
ग) पाँच  
घ) छः
7. 'फर्स्ट क्लास' शब्द निम्न में से किस प्रकार का शब्द है?  
क) आगत  
ख) तत्सम  
ग) देशज  
घ) तद्भव
8. दीवानों की हस्ती कविता के रचयिता कौन हैं ?  
क) भगवतीचरण वर्मा  
ख) भगवतीशरण उपाध्याय  
ग) शिवमंगल सिंह 'सुमन'  
घ) सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला'
9. कवि के अनुसार दीवाने क्या बनकर आए?  
क) उल्लास

- ख) आँसू  
ग) शांति  
घ) संवेदना
10. कविता के अनुसार दुनिया किसकी है ?  
क) इंसानों की  
ख) लोगों की  
ग) भिखारियों की  
घ) दानियों की
11. कवि ने किसे एक समान स्वीकार किया है ?  
क) परेशानियों को  
ख) सफलता को  
ग) सुख-दुख को  
घ) मित्रता-शत्रुता को
12. कवि के अनुसार वह स्वयं किसमें बँधा था?  
क) घर में  
ख) मोह में  
ग) बंधन में  
घ) रस्सियों में
13. सुख-दुख में कौन-सा समास है ?  
क) तत्पुरुष समास  
ख) द्विगु समास  
ग) द्वन्द्व समास  
घ) कर्मधारय समास
14. 'उर' शब्द का पर्यायवाची है  
क) उधर  
ख) उभय  
ग) उदय  
घ) हृदय
15. 'आलम' शब्द है  
क) तत्सम  
ख) तद्भव  
ग) देशज  
घ) विदेशी
16. उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद है -  
क) उल् + लास  
ख) उत् + लास  
ग) उ + ल्लास  
घ) उल्ला + स
17. बंधन शब्द का विलोम है-  
क) अबंधन  
ख) मुक्त  
ग) परिबंधन  
घ) अटूट बंधन
18. निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग और मूल शब्द के सही विकल्प चुनिए-  
1) अवनति  
क) अव + नति  
ख) अवन + ति  
ग) अवन् + अति  
घ) अ + वनति
- ब) प्रत्येक  
क) प्रत्य + एक

- ख) प्रति + एक  
ग) प्रत + येक  
घ) प्रति + येक
19. 'उपसर्ग' शब्द के कहाँ लगता है ?  
क) पहले  
ख) बीच में  
ग) पीछे  
घ) ऊपर
20. 'रसीला' में प्रत्यय जोड़ा गया है -  
क) आ  
ख) ला  
ग) सीला  
घ) ईला
21. 'दर्शनीय' में प्रत्यय है-  
क) य  
ख) नीय  
ग) ईय  
घ) निय
22. 'नैतिक' में प्रत्यय है-  
क) क  
ख) तिक  
ग) इक  
घ) नै